

Vipul Limited

Vipul TechSquare Golf-Course Road, Sector-43 Gurgaon - 122 009

Tel: -91-124-406 5500 Fax: 91-124-406 1000 E-mail : info@vipulgroup.in

www.vipulgroup.in

Ref. No. VIPUL/SEC/FY2023-24/2171

June 08, 2023

The Secretary
BSE Limited, (Equity Scrip Code: 511726)
Corporate Relationship Department,
At: 1ST Floor, New Trading Ring, Rotunda
Building, PhirozeJeejeebhoy Towers, Dalal
Street, Fort, Mumbai-400001

The Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Limited,
(Equity Scrip Code: VIPULLTD)
Exchange Plaza, BandraKurla Complex,
Bandra, Mumbai-400051

Sub: Newspaper clippings regarding Audited Financial Results for the 4^{TH} Quarter and Financial Year ended March 31, 2023 (Standalone and Consolidated)

Dear Sir(s),

Pursuant to Regulation 30 & 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are forwarding herewith copies of Newspaper clippings regarding Audited Financial Results for the 4TH Quarter and Financial Year ended March 31, 2023 (Standalone and Consolidated) published on Thursday, June 08, 2023 in "Business Standard", in English language and "Business Standard", in Hindi language.

You are requested to take the above information on record and bring the same to the notice of all concerned.

Thanking you

Yours faithfully

For Vipul Limited

(Sunil Kumar) Company Secretary

A-38859

Encl: As above

Continued from previous page...)

6. Comparison of Accounting Ratios with Industry Peers

There are no listed companies in India that are comparable in all aspects of business and services that we provide. Accordingly, it is not possible to provide an industry comparison in relation to our Company.

7. The Issue Floor is ₹314.00 which is 31.4 times of the Face Value of the Equity Shares and the Issue Cap Price is ₹330.00 which is 33.00 times of the face value

The issue price will be determined by the issuer in consultation with the BRLM, on the basis of book-building on the basis of assessment of the market demand from investors for the Equity Shares and shall be justified in view of the above qualitative and quantitative parameters

Investors should read the above-mentioned information along with "Risk Factors", "Our Business", "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" and "Financial Information" on pages 23, 127, 182 and 145, respectively, to have a more informed view. The trading price of the Equity Shares could decline due to the factors mentioned in the "Risk Factors" on page 23 and you may lose all or part of your investment

For further details, please see the chapter titled "Basis for Issue Price" beginning on page 84 of the RHP

RISK IN RELATION TO THE FIRST ISSUE

Bidders / Applicants should note that on the basis of PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidders/Applicants may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic Details of the Bidders/Applicants as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to an Issue. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants' sole risk. Bidders /Applicants should ensure that PAN, DP ID and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Application Form. The PAN, DP ID and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the PAN, DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 124 of the Red Herring Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 269 of the Red Herring Prospectus.

LIABILITY OF MEMBERS AS PER MEMORANDUM OFASSOCIATION: The Liability of the members of the Company is Limited.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The Authorised share capital of the Company is ₹ 20,00,00,000 comprising of ₹ 15.00.00.000 divided into 1.50.00.000 Equity Shares of ₹ 10 each and ₹ 5.00.00.000 divided into 50.00.000 Redeemable Non-Cumulative Non- Convertible Preference Shares having Face Value of ₹ 10/- each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company before the Issue is ₹ 10,00,00,000 comprising of ₹ 5,10,00,000 divided into 51,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each and ₹ 4,90,00,000 divided into 49,00,000 Redeemable Non-Cumulative Non- Convertible Preference Shares having Face Value of ₹ 10/- each. For details of the Capital Structure, see "Capital Structure" on the page 63 of the Red Herring Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company:

Name of the subscriber	No. of shares subscribed
Pawan Kumar Tibrewalla	1,000 Equity Shares
Seema Tibrewalla	1,000 Equity Shares
Disha Tibrewalla	1,000 Equity Shares
Raunak Agarwal	1,000 Equity Shares
Rajlakshmi Mohta	1,000 Equity Shares
Milan Ghosh	1,000 Equity Shares
Priya Mohta	1,000 Equity Shares

Details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see "History and Certain Corporate Matters" on page 124 of the Red Herring Prospectus. For details of the share capital and capital structure of the Company see "Capital Structure" on page 63 of the Red Herring Prospectus.

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section titled "Risk Factors" on page 23 of the Red Herring Prospectus.

ASBA*

Simple, Safe, Smart way of Application-Make use of it!!!

*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below.

Mandatory in Public Issues. No Cheque will be accepted



UPI-Now available in ASBA for Retail Individual Investors (RII)** Investors are required to ensure that the bank account used for bidding is linked to their PAN. UPI - Now available in ASBA for RIIs applying through Registered Brokers, DPs & RTAs. RIIs also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account.

Investors have to apply through the ASBA process "ASBA has to be availed by all the investors except anchor investor. UPI may be availed by Retail Individual Investors. For details on the ASBA and the UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 216 of the RHP. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India ("AIBI"), the Stock Exchanges and in the General Information Document.

*ASBA forms can be downloaded from the website of BSE

**List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. Kotak Mahindra Bank Limited has been appointed as Sponsor Banks for the Issue, in accordance with the requirements of the SEBI circular dated November 1, 2018, as amended. For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll free number-18001201740 and Mail Id- ipo.upi@npci.org.in. • For the list of UPI Apps and Banks live on IPO, please refer to the link www.sebi.gov.in. For issue related grievance investors may contact: Horizon Management Private Limited - Manav Goenka (+91 33 4600 0607) (Email Id: smeino@horizon.net.co).

REGISTRAR TO THE ISSUE

T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area,

Telephone: +91 112 638 7281/83,

Email ID: info@masserv.com

Website: www.masserv.com

Phase - II, New Delhi -110 020, Delhi, India;

4132 0335; Facsimile: +91 112 638 7384

Investor grievance: investor@masserv.com

MAS Services Limited



Horizon Management Private Limited

19 R N Mukherjee Road, Main Building, 2nd Floor Kolkata- 700 001, West Bengal, India

Telephone: +91 33 4600 0607 Facsimile: +91 33 4600 0607 Email ID: smeipo@horizon.net.co Website: www.horizonmanagement.in

Investor Grievance ID: investor.relations@horizon.net.co Contact Person: Manay Goenka SEBI Registration Number: INM000012926

Validity: Permanent

Place: Kolkata

Contact Person: N C Pal SEBI Registration: INR 000000049 Validity: Permanent

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER COSMIC CRF

Ms. Anita Kumari Gupta 19, Monohar Pukur Road, Kolkata – 700 029, West Bengal,

India; Telephone: +91 8100862182; Facsimile: +91 3379647499; E-mail: cs@cosmiccrf.com;

Website: www.cosmiccrf.com; CIN: U27100WB2021PLC250447

Bidders are advised to contact the Company Secretary and Compliance Officer, the BRLM and/or the Registrar to the Issue in case of any pre-Issue or post-Issue related problems such as non-receipt of letters of Allotment, credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of funds by electronic mode etc.

ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK: Kotak Mahindra Bank Limited

LINK TO DOWNLOAD ABRIDGED PROSPECTUS: https://cosmiccrf.com/pre-issue-price-band-advertisement/

UPI: Retail Individual Bidders can also Bid through UPI Mechanism.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

For Cosmic CRF Limited Mr. Aditya Vikram Birla **Managing Director**

Date: June 7, 2023 Disclaimer: Cosmic CRF Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions

and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the RHP with the Registrar of Companies, Kolkata, West Bengal on June 5, 2023 and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. The RHP is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE at www.bsesme.comand is available on the website of the BRLM at www.horizonmanagement.in. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the RHP including the section titled "Risk Factors" beginning on page 23 of the Red Herring Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

Corrigendum terday-06-06-23 advt. published (PMC) for redevelopment of

Uttung Sahakari Gruha Nirman Sanstha Maryadit at Samantwadi, Sonawala Road Goregaon (East), Mumbai 400 063 Please make the correction in submission date is 14/06/2023

For any details contact: Chairman 9833410232 Secretary 9987952102 Treasurer 9820748455

PUBLIC NOTICE

TO WHOMSOFVER IT MAY CONCERN This is to inform the General Public that following share certificate of VIP industries Ltd. having its Registered Office at 5th Floor, DGP House, 88 C. Old Prabhadevi Road, Mumbai, Maharashtra, 400025

_					
Sr. No.	Name Of Shareholder/s	Folio No.	Certificate Nos.	Distinctive Nos.	No. of shares
1	Rustam Soli Dubash & Sherna Nusly Pocha	0042612	4129	3506841-3514840	8000

The Public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above referred share certificates Any person who has any claim in respect of the said share certificates should lodge such claim with the Company or its Registrar and Transfer Link Intinme India Pvt. Ltd, C-101, 1th Floo 247, Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West) ,Mumbai,Maharashtra,400083 within 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company shall proceed to issue Duplicate Share Certificate/s

Place: Mumbai

Opinion, Monday to Saturday

To book your copy, sms reachbs to **57575** or email order@bsmail.in

Insight Out

Business Standard

Tata Motors Ltd Regd Off: Bombay House, 24 Homi Mody Street, Mumbai - 400001

Notice is hereby given the certificate of undermentioned securities of the company has been lost/ misplaced and the holders of the said securities / applicants have applied to the company to issue

Any person who has any claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its registered office within 15 days from this date, else the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificate without further intimation.

Sr No	Name Of Shareholder/s	Kind of Securities & FV	No of Securities	Distinctive Nos
1	Rustam Soli Dubash &	EQ FV Rs 2	1120	20080671-20081790
	Sherna Nusly Pocha			
Place:	Mumbai			Sd-
Date: 08.06.2023 Rustam Soli Dubash				

V Vipul

Date : June 06 2023

Place : Gurugram

VIPUL LIMITED

Regd. Office: Unit No. 201, C-50, Malviya Nagar, Delhi-110017 Corp. Office: Vipul TechSquare, Golf Course Road, Sector-43, Gurgaon-122009 CIN No.: L65923DL2002PLC167607, Phone No.: 0124-4065500, Website: www.vipulgroup.in Extract of Standalone Audited Financial Results for the 4th quarter & year ended March 31, 2023

			(₹ In	Lakhs except p	er share Earni	ngs per share)
_		FOR T	HE QUARTER E	ENDED	FOR THE Y	AR ENDED
S. No	Particulars	31.03.2023 Audited	31.12.2022 Unaudited	31.03.2022 Audited	31.03.2023 Audited	31.03.2022 Audited
1 2	Total Income from operations Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional	1,060.62	759.20	2,339.71	4,696.04	13,158.05
3	and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional	(6,561.86)	(1,221.19)	(654.03)	(10,015.51)	(3,491.51)
4	and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional	(6,591.86)	(1,221.19)	(654.03)	(19,478.65)	(3,491.51)
5	and/or Extraordinary items) Equity Share Capital	(6,591.86) 1,199.84	(1,221.19) 1,199.84	(654.03) 1,199.84	(19,478.65) 1,199.84	(2,785.97) 1,199.84
6 7	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax) Earnings per share (of ₹ 1/- each) (for continuing and discounted operations)	(6,591.86)	(1,221.19)	(604.92)	(19,448.48)	(2,736.86)
	- Basic - Diluted	(5.49) (5.49)	(1.02) (1.02)	(0.55) (0.55)	(16.23) (16.23)	(2.32) (2.32)
E	ctract of Consolidated Audited Financial Re	esults for th	ne 4th quar	ter & year e	ended Marc	h 31, 2023
1 2	Total Income from operations Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional	1,177.87	860.89	3,164.79	8,482.59	14,776.19
3	and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional	(761.77)	(1,393.35)	(1,398.85)	(1,474.56)	(4,883.48)
4	and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional	(791.77)	(1,393.35)	(1,403.76)	(10,937.72)	(4,888.38)
5	and/or Extraordinary items) Equity Share Capital	(692.49) 1,199.84	(1,391.97) 1,199.84	(1,403.51) 1,199.84	(11,733.81) 1,199.84	(4,182.65) 1,199.84
6 7	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax) Earnings per share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discounted operations)	(662.88)	(1,391.97)	(1,354.40)	(11,704.21)	(4,133.54)
	- Basic - Diluted	(0.58) (0.58)	(1.16) (1.16)	(1.17) (1.17)	(9.78) (9.78)	(3.49) (3.49)
NO)TE:					

The above as an extract of the detailed format of financial results for the 4th quarter and year ended March 31, 2023 (Standalone and Consolidated) filed with BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd., under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements; Regulations, 2015 ("Listing Regulations"). The full format of the financial results for the 4th quarter and year ended March 31, 2023 is available o he websites of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website i.e. www.vipulgroup.in. The above Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the 4th quarter and year ended 31.03.2023 inter-alia comprising of th financial data as of 31.03.2020 of Vipul SEZ Developers Private Limited & its subsidiaries as have been reviewed by the Audit Committee and or heir recommendation have been approved by the Board of Directors at their respective meetings held on June 06, 2023 through audio visual me of communication

The above results have been prepared in accordance with recognitions and measurements principles laid down in Ind AS prescribed under 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India

These results will be made available on the Company's website viz **www.vipulgroup.in** and websites of BSE Limited and National Stock Exchange f India Limited viz, www.bseindia.com and www.n

For and on behalf of the Board Punit Beriwala Managing Director, CEO & Chief Financial Officer

NOTICE CUM ADDENDUM



NOTICE CUM ADDENDUM TO THE SCHEME INFORMATION **DOCUMENT / KEY INFORMATION MEMORANDUM OF SBI FIXED MATURITY PLAN (FMP) - SERIES 82 (91 DAYS)**

Taking into consideration the macro-economic conditions and regulatory environment and factors affecting the liquidity and interest rates, it could be in the interest of the unitholders to continue their investments in the Scheme and thus Unitholders of SBI Fixed Maturity Plan (FMP) - Series 82 (91 Days) ('the Scheme') are requested to note that in terms of enabling provisions of Regulation 33(4) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996, it is proposed to further rollover the aforementioned Scheme (extend the maturity of the Scheme) as under:

Sr. No.	Scheme Name	Existing tenure	Existing Maturity Date*	Period of Rollover	Revised Maturity Date*
1	SBI Fixed Maturity Plan (FMP) - Series 82 (91 Days)	91 Days	June 22, 2023	91 Days	September 21, 2023

*or immediately succeeding Business day, if that day is not a Business day.

Accordingly, detailed letter intimating the proposed roll-over along with details and consent letter will be dispatched / emailed to the registered postal address/ email id of the unitholder(s)/Beneficial Owners of the above Scheme, whose names appear in the records of the Registrar and Transfer Agent, M/s Computer Age Management Services Limited/ Statement of Beneficiary Owners maintained by the Depositories (in case of units in Demat mode). As a unitholder under the Scheme, you may choose to indicate your concurrence by signing the consent letter received by you along with letter intimating proposed rollover and submit the same at the nearest "Official Point of Acceptance" of SBI Mutual Fund, latest by 3.00 p.m. on existing maturity date of the aforementioned Scheme. You can also download the consent letter available on our website www.sbimf.com

Alternatively, you may also provide your consent to rollover by sending an email to sbimfrollover@camsonline.com from your registered email ID mentioned in the Folio, clearly mentioning your Name, Folio Number and Scheme/Plan and opt for rollover of all units or partial units. In case of partial rollover, please specify number of units or amount that you wish to rollover. In case we do not receive your consent to the aforementioned change latest by 3.00 p.m. on existing maturity date of the aforementioned Scheme, your investment under the Scheme shall be redeemed at applicable NAV as per the existing maturity date of the Scheme as mentioned in the

Taking into consideration unitholder's convenience and seamless rollover experience, SBI Funds Management Limited / SBI Mutual Fund reserves the right to take written consent for rollover from Unitholders through any other mode.

The Units of the Scheme is listed on BSE Limited as mentioned in Scheme Information Document (SID) /Key Information Memorandum (KIM) of the Scheme and will be suspended for trading as per stock exchange trading requirements till completion of rollover of Scheme as mentioned in the above table. The units of the Scheme will be again made available for trading on BSE Limited only after completion of rollover of the

Unitholders are also advised to consult his or her own financial advisors with respect to the financial or tax implications if any, arising out of his or her participation in the rollover

All the other provisions of SID/KIM/addenda except as specifically communicated to unitholders through separate communication remains unchanged.

This Notice-cum-Addendum forms an integral part of the SID/KIM of the Scheme of SBI Mutual Fund, as amended from time to time.

> For SBI Funds Management Limited Sd/-

Place: Mumbai Date: June 07, 2023

Shamsher Singh Managing Director & CEO

Asset Management Company: SBI Funds Management Limited (A Joint Venture between SBI & AMUNDI) (CIN: Ú65990MH1992PLC065289) Trustee: SBI Mutual Fund Trustee Company Pvt. Ltd. (CIN: U65991MH2003PTC138496) Sponsor: State Bank of India, **Regd Office:** 9th Floor, Crescenzo, C – 38 & 39, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051 · Tel: 91-022-61793000 · Fax: 91-022-67425687 E-mail: partnerforlife@sbimf.com • www.sbimf.com

BSE disclaimer: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Ltd. should not in any way be deemed or construed that the Scheme Information Document has been cleared or approved by BSE Ltd. nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Scheme Information Document. The investors are advised to refer to the Scheme Information Document for the full text of Disclaimer Clause of BSE Ltd.

> Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

SBIME/2023/JUNE/02



सेन्ट्रल बेंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India

"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911 1911 से आपके लिए "केंद्रित" Central Office: 09th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 4 Tel No. 022 66387777 Email id: investors@centralbank.co.in

Website: www.centralbankofindia.co.in NOTICE OF 16TH ANNUAL GENERAL MEETING OF BANK Notice is hereby given that the 16th (Sixteenth) Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Central Bank of India will be held on Friday, 30th June, 2023 at 11.00 a.m. (IST) at Head office of the Bank

situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021 (deemed venue of the meeting) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the following business: 1. To discuss, approve and adopt the Audited Standalone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2023, Standalone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the financial year ended 31st March 2023, the report of the Board of

Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts. 2. To approve the appointment of Shri Hardik Mukesh Sheth as

Government Nominee Director on the Board of the Bank. 3. To approve the appointment of Shri M.V. Murali Krishna as Executive

Director on the Board of the Bank.

. To approve the appointment of Shri Priavrat Sharma as Non-Official Director under CA category on the Board of the Bank.

5. To consider raising of Equity capital aggregate upto Rs.2500 crore through various modes such as QIP/FPO/Rights issue NOTES:

HOLDING OF AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM): Pursuant to Genera Circular No.10/2022 dated 28th December, 2022, read with other relevant Circulars including General Circular No.20/2020 dated 05th May, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), the Bank is convening the 16th Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) without the physical presence of the Members. Hence, Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM only. The Head office of Bank shall be deemed to be the venue of the AGM

Remote E-Voting: In compliance with Regulation 44(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and in compliance with SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, the Bank is pleased to offer remote e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with Link Intime India Pvt. Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Bank to facilitate remote e-voting.

The remote e-voting period will commence from 10.00 a.m., Monday, 26th June, 2023 till 05.00 p.m. Thursday, 29th June 2023. During this period, shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Friday, 23rd June, 2023, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by Link Intime India Pvt. Limited for voting thereafter.

In case, the shareholders/ members holding securities in physical mode/ Institutional shareholders have any queries or issues regarding e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or write an email to enotices@ linkintime.co.in or Cal us :- Tel : 022 - 49186000

APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE: No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the Shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been sent to the Bank through e-mail at smird@centralbank.co.in not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or

before 5.00 p.m. on Monday, 26th June, 2023. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised

Representative of a shareholder **CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:** The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Saturday 24th June, 2023 to Friday, 30th June, 2023

Electronic copy of AGM Notice and Annual Report for FY 2022-23 which inter alia contains the process and manner of attending the AGM through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM), e-voting at the said AGM, Remote e-voting etc., will be sent to all Shareholders of Bank, whose e-mail ids are available with the Bank/ RTA. Further, a copy of the said Annual Report will also be uploaded on website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relations" and will be submitted to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. Hard copy of Annual Report will not be dispatched to Shareholders.

Registration of Email ID: Shareholders of Bank holding shares in demat form can register their mail ids with their Depository Participants to receive the soft copy of AGM Notice and Annual Report of Bank. Shareholders holding shares in physical form can login into the website of Bank's RTA, Link Intime India Private Limited www.linkintime.co.in under Investor Services > Email Registration -fill in the details and upload the required documents and Submit.

By order of the Board of Directors (Chandrakant Bhagwat)

Date: 07.06.2023 Place: Mumbai

(both days inclusive).

Company Secretary & Compliance Officer



तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड

रूडकी शाख 176, नेहरू नगर, देहरादून रोड़, रूड़की-247667, उत्तराखप

कब्जा नोटिस (नियम 8 (1)) (अचल संपत्ति के लिए)

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभतिकरण और पूर्नाटन तथा प्रतिभति हित व प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों क प्रयोग करते हुए दिनांक 17.02.2023 को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें **उधारकर्ताः** 1. **श्री नई**म **अहमद**, (पुत्र श्री मुमताज अली) 30-सलेमपुर राजपूताना, रसूलपुर, रुड्की- 247667. **गारंटर: 1.** श्रीमती शाहीन, (पत्नी नईम अहमद), 30- सलेमपुर राजपूताना, रसूलपुर, रुड्की- 247667 **2.** श्री मनोज, (पुत्र श्री राजपाल) मकान नंबर 690, न्यू आदर्श नगर, आसफनगर, रुड़की- 247667 को हमारी रूड़की शाखा द्वार मांग नोटिस में वर्णित ऋण की राशि **रू. 9,75,580.18 (रूपये नौ लाख पिचल्तर हजार पांच सौ अर्स्स** और अट्ठारह पैसे) 31,01,2023 तक साथ ही आगे के ब्याज सहित नोटिस दिए जाने के 60 दिवस व भीतर चकाने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्ष कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 03.06.2023 को निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाए जाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 धारा 8 के प्रावधान के लिए उधारकर्ताओं के ध्यान को आमंत्रित किया जाता है।

विशोष रूप से ऋणी तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड** के य धनराशि रू. 10,05,872.18 (रूपये दस लाख पांच हजार आठ सौ बाहलर और अट्ठारह पैसे 31.05.2023 **तक** और आगे के ब्याज और शुल्क के साथ देय होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण वह आवासीय भूमि जो न्यायसंगत बंधक जो 3561.56 वर्ग फीट और जिसमें एक निर्मित घर है ज 1484 वर्ग फीट (ग्राउण्ड फ्लोर-1484 वर्ग फीट)में है। जो खसरा संख्या- 285, खाता नम्बर-23, सलेमपु राजपुताना, रसूलपुर गांव, रुड़की-247667. परगना-भगवानपुर, तहसील रुड़की जिला हरिद्वार, उत्तराखंड स्थित है जो श्री नईम अहमद के नाम पर है। **सीमाएं:**- उत्तर: खाली जमीन दक्षिण: खाली जमीन , पूर्व गह संपत्ति पश्चिम : 15 फीट सडक

दिनांक: 03,06,2023 प्राधिकत अधिकारी स्थान: रूडकी तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड (रूड्की शाखा



घामपुर बायो ऑर्गेनिक्स <u>लिमिटेड</u> पंजी. कार्यालयः शुगर मिल परिसर, ग्राम असमोली, संमल, मुरादाबाद, यु.पी—244304 CIN: L15100UP2020PLC136939, फोनः +91-7302318313 ई-मेलः investors@dhampur.com, वेबसाइटः www.dhampur.com

सूचना कंपनी की तीसरी वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि तीसरी एजीएम की सचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष मकाज के निष्पादन के लिए धामपुर बायो आर्गेनिक्स लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की तीसरी वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 30 जून, 2023, को दोपहर 4:00 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फ्रॅसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ("ओएवीएम") के द्वारा आयोजित की जाएगी। बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अर्थात शुगर मिल परिसर, ग्राम असमोली, संभल, मुरादाबाद, यूपी—244304 माना जाएगा।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र सं0. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र सं0. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं0. 20/2020 दिनांक 5 मई. 2020, और सामान्य परिपत्र सं0. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 19/2021 दिनांक 8 दिसम्बर, 2021, 20/2021 दिनांक 14 दिसम्बर, 2021, 02/2022 दिनांक 5 मई 2022 और 10/2022, दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 ("एमसीए परिपत्र") और भारतीय प्रतिमूति तथा विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किये गये परिपत्र सं. सेबी/एवओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/ 2020 / 79 दिनांक 12 मर्ड. 2020. परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, परिपन्न सं. सेबी/एमओ/सीएफडी/पीएमडी/पीएमडी/पीएसड सदस्यों की शारीरिक उपरिश्वति के बिना एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दी गई है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सदस्यों की उपरिश्वति की गणना एजीएम के लिए कोरम की गणना के प्रयोजन हेतु मानी जाएगी।

लागू परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2022—23 के लिए लेखापरीक्षि वित्तीय विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्टॉनिक प्रतियां उन सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनके ई—मेल आईडी कंपनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत हैं। सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट व इलेक्ट्रॉनिक डिस्पैच बुधवार, 7 जून, 2023 को पूरा कर लिया गया है। एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतिया भेजने की आवश्यकता उपरोक्त कथित एमसीए परिपत्रों / सेबी परिपत्रों के अनुसरण में समाप्त कर दी गई है। वार्षिक रिपोर्ट और तीसरी एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.dhampur.com और एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है और इसे स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यथा www.bseindia.com एवं www.nseindia.com से भी प्राप्त किया जा सकता है।

रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए निर्देश:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित नियम 20 कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 तथा सर्विवीय मानक—2 के अनुसरण में कंपनी अपने सदस्यों को तीसरी एजीएम में प्रस्तावित संकल्पों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग हेतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविध उपलब्ध करा रही है।
- ऐसा व्यक्ति जिसका नाम ई–बोटिंग की कट–ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 23 जून, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार किये गये लागार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वही तीसरी एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसा व्यक्ति जो कथित कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, वह इसे सूचना का प्रयोजन मात्र समझे।
- सदस्यों का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 23 जून, 2023 को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयर के आनुपातिक होगा।
- रिमोट ई—वोटिंग सोमवार, 26 जून, 2023 को प्रातः 9:00 बजे प्रारंभ होगी और गुरूवार, 29 जन 2023 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। गरूवार 29 जन 2023 को सायं 5:00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद उसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा।
- उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा और कथित तिथि एवं समय के बाद सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिकली वोट देने की अनुमति नहीं होगी।
- सदस्यगण जो कट-ऑफ तिथि से पूर्व एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद भिया अधिप्रहित करते हैं उत्तरे अनुरोध है कि वे अपना वोट देने के लिए यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए एजीएम की सूचना का अवलोकन करें।
- एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने के लिए योग्य होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें बैठक में वोट देने की अनुमति नहीं होगी।
- रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम में ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एवं पद्धति एवं वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के निर्देश एजीएम सूचना में दिये गये हैं जो कंपनी की वेबसाइट www.dhampur.com एवं एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों अर्थात www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध हैं।
- किसी भी पूछताछ/शिकायत के लिए आप एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड सैक्शन में सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने ताक्रियानम्म स्वर्णाक्षुत्राव्यात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्र स्वर्णने क तिर्देश के तिर्देश के तिर्देश क वाले प्रश्न (एफएक्यू) और स्वरस्यों के लिए ई-वीटिंग यूजर मैनुक्रत का अवलोकन कर सकते हैं। सदस्यगण जिन्हें तकनीक के उपयोग पर एजीएम से पूर्व या एजीएम के दौरान कोई सहायता चाहिए वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें या 022-4886 7000 और 022-2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं।

एजीएम से पूर्व एवं एजीएम के दौरान वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए साकेत शर्मा (एफसीएसः 4229), पार्टनर, मैसर्स जीएसके एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

रिमोट ई—वोटिंग का परिणाम और एजीएम के दौरान डाले गये वोट की संख्या को एजीएम समाप्त होने के दो कार्यदिवसों के भीतर घोषित किया जाएगा। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित किया गया परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.dhampur.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर इनकी घोषणा के तरंत बाद प्रदर्शित किया जाएगा और इसकी सचना स्टॉक एक्सचेंज, जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात् बीएसई एवं एनएसई को भी दी जाएगी और यह उनकी संबंधित वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर

ई-मेल पता पंजीकरण करने की प्रक्रिया

कंपनी की सम्पूर्ण शेयरधारिता डिमेट प्रारूप में है। जिन सदस्यों को ई–मेल आईडी अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें ई—मेल के माध्यम से एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट भेजने के सीमित प्रयोजन के लिए ऐसे सदस्यगण अपना डिमेट खाता विवरण (सीडीएसएल—16 अक्षर लामार्थी आईडी या एनएसडीएल 16—अक्ष डीपीआईडी+सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन कार्ड (स्व-सत्यापित प्रति), आधार कार्ड (स्व-सत्यापित प्रति) को कंपनी को investors@dhampur.com पर / आरटीए ई—मेल आईडी rla@alankit.com पर उपलब्ध कराकर अपना ई—मेल आईडी अस्थायी रूप से पंजीकृत करा सकते हैं या लिंक https://mailupd.alankit.com को देखें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-मेल पते के स्थायी पंजीकरण के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत कराएं।

अंतिम लामांश के मगतान के लिए रिकॉर्ड तिथि

कंपनी ने एजीएम में शेयरघारकों के अनुमोदन के अधीन अंतिम लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों के योग्यता के निर्धारण के लिए शुक्रवार, 23 जून, 2023 रिकार्ड तिथि के रूप में निर्धारित की है।

कृते धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड हस्ता./-स्थान : नई दिल्ली

दिनाकः ७ जून, 2023 बैंक ऑफ़ बड़ोदा

JANA SMALL FINANCE BANK

पंजीकृत कार्यालय : फेयरवे, ग्राउंड व पहली मंजिल, सर्वे नं. 10/1, 11/2, व 12/2बी ऑफ डीमलूर कोरामंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के पास, चल्लाघाट, बुँगलोर–560071 शाखा कार्यालय : 16 / 12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू ई. ए आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005

रृपया ऋणी ∕ सह—ऋणी ∕ गारंटर ∕ गिरवीकर्ता 1) गूलाटी इंटरप्राइजेज, के संबंध में 05.06.2023 की इस समाचारपत्र में प्रकाशित कब्जा सूचना का संदर्भ लें जिसमें **कब्जे** की तिथि / समय को 02.06.2023 शाम 11.45 की बेजाय "02.06.2023 को सुबह 11.45" के रूप में पढ़ा जाए। अन्य विवरण समान रहेगा।

हस्ता. / — प्राधिकृत अधिकारी, स्थान : दिल्ली जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए दिनांक : 08.06.2023

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्युशन लिमिटेड (\mathcal{N}) टाटा पावर एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम रजि. आफिस : एनडीपीएल हाउस, हडसन, लाइन, किंग्सव केम्प, दिल्ली—110009 फोन : 66112222, फैक्स : 27468042, ईमेल : TPDDL@tatapower-ddl.com CIN No. : U40109DL2001PLC111526, वेबसाईट : www.tatapower-ddl.com

निविदा	Jun 08, 2023		
टाटा पावर–डीडीएल निम्न मदो	गमंत्रित करता हैः		
निविदा पूछताछ सं. कार्य का विवरण	अनुमानित लागत/धरोहर जमा राशि (रु)	बोली दस्तावेज की बिक्री	बोली जमा कराने की अंतिम तारीख और समय/ निविदा खोलने की तारीख और समय
TPDDL/ENGG/ENQ/200001550/23-24 Cyber Security Assessment and Roadmap	1.07 Crs/ 2,67,500	08.06.2023	30.06.2023;1600 Hrs/ 30.06.2023;1630 Hrs
TPDDL/ENGG/ENQ/200001549/23-24 Three year RC for bill printing services in Tata Power-DDL.	8.88 Crs/ 8,66,000	08.06.2023	30.06.2023;1600 Hrs/ 30.06.2023;1630 Hrs
TPDDL/ENGG/ENQ/200001553/23-24 RC for Supply of Relay with Power Pack & Modem	0.28 Crs/ 72,000	09.06.2023	30.06.2023;1530 Hrs/ 30.06.2023;1600 Hrs
शुद्धिपत्र /	निविदा ति	ाथि विस्ता	र

12.06.2023 at 1500 Hrs/ 12.06.2023 at 1530 Hrs Supply of MCCBs of various ratings TPDDL/ENGG/ENQ/200001538/23-24 Supply of 33kV Outdoor Vacuum Circuit Breaker 12.06.2023 at 1630 Hrs/ 13.05.2023 सम्पूर्ण निविदा एवं शुद्धिपत्र दस्तावेज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध

निविदा पूछताछ सं.

कार्य का विवरण

TPDDL/ENGG/ENQ/200001540/23-24

पूर्व प्रकाशित

दिनांक

13.05.2023

संशोधित निविदा तिथि/बोली

जमा कराने की तिथि/बोली

खोलने की तिथि

website www.tatapower-ddl.com→Vendor Zone → Tender / Corrigendum Document Contracts - 011-66112222



Business Standard

Insight Out

सार्वजनिक सूचना

इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल **श्री श्याम बिंदल और शिवम बिंदल**, संपरि पता नं. 586/6/41-42, वाका मौजा पलवल (श्याम पता न. 586/6/41-42, वाको माजा पतवल (श्याम नगर), नगर परिषद पतवल, तहसील और जिला पत्वल, (क्षेत्रफल 48 वर्ग गज) के मालिक हैं, स्थानांतरण विलेख द्वारा दिनांक 28-01-2021 द्वारा श्रीमती राजरानी के पक्ष में (दस्तावेज सं. 11450) स्थानांतरित किया गया था और मेरे मुवक्किल इसे फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के पास बंध रखना चाहते हैं। जिस किसी को भी इस बंधक पर को आपत्ति है, वह 7 दिनों के भीतर विशिष्ट लिखित आपत्ति जानात है, यह 7 दिना के मारार विचिन्न है शिखत जानात के साथ अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकता है अन्यथा माना जाएगा कि इस बंधक पर कोई आपत्ति नहीं है।

वरुण फोगाट (एडवोकेट) 72/03, गली नं. 2, कृष्णा नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली- 110029 (07982557892) (varunphogaat@live.com

st Floor, Sudharma-II, Lal Kothis ng Center, Tonk Road, Jaipur- 302015 Case No.: OA/1263/2022 is under sub-section (4) of section 19 o Summons under sub-section (4) of section 15 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993

CTATE PANK OF INDIA vs. Exh. No. 806 STATE BANK OF INDIA VS PERFECT PRINTING AND BINDING SOLUTION

PENFECT PRINTING AND BINDING SOLUTION
THROUGH ITS PROPRIETOR ABHIMANYU KRISHNIYA,
OFFICE AT SHOP NO. 101, BHAGWAN DAS MARKET,
CHOURARASTA, JAIPUR Jaipur, RAJASTHAN AISOA AL
CHOURARASTA, JAIPUR Jaipur, RAJASTHAN AISOA AL
CACTORY AT PLOT NO. H-42-0D SARNA DOONGARI
INDUSTRIAL AREA, JHOTWARA, JAIPUR
(2) SH. ABHIMANYU KRISHNIYA SIO ROSHAN LAL
KRISHNIYA RIO B-51, JAMNAPURI, NEAR ROSE
SCHOOL, MURLIPURA, JAIPUR AISO AL. A-244,
HANUMAN NAGAR, VAISHALINAGAR, JAIPUR
(3) SH. ROSHAN LAL KRISHNIYA SIO NAVRANG RAI
KRISHNIYA RIO B-51, JAIPUR AISO AL. A-244,
HANUMAN NAGAR, VAISHALINAGAR, JAIPUR
(4) SMT. GUNJAN KRISHNIYA WO ROSHAN LAL
KRISHNIYA RIO B-51, JAMNAPURI, NEAR ROSE
SCHOOL, MURLIPURA, JAIPUR AISO AL. A-244,
HANUMAN NAGAR, VAISHALINAGAR, JAIPUR
(4) SMT. GUNJAN KRISHNIYA WO ROSHAN LAL
KRISHNIYA RIO B-51, JAMNAPURI, NEAR ROSE
SCHOOL, MURLIPURA, JAIPUR AISO AL. A-244,
HANUMANNAGAR, VAISHALINAGAR, JAIPUR
SCHOOL, MURLIPURA, JAIPUR AISO AL. A-244,
HANUMANNAGAR, VAISHALINAGAR, JAIPUR
SUMMONS

WHEREAS, OA/1263/2022 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on 20.03.2023 WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue Summons/ Notice on the said Application undersolved to the Section 19(4) of the Act, (O.A.) filed against you fo Recovery of Debts of Rs. 8981246/- (Application along with copies of documents letc. annexed). If accordance with sub-section (4) of Section 19 of the Act, you the Defendants are directed as under-(i) to show cause within thirty days of the service o summons as to why relief prayed for should not pranted; (ii) to disclose particulars of properties o assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the origina application; (iii) you are restrained from dealing with the applicant under serial number 3A of the original application; (iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other asset or be original application, pending hearing and disposa of the application for attachment of properties; (iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise except in the ordinary course of his business any or the assets over which security interest is created and or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal; (v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets are diseased. sale of secured assets or other assets and propertien in the ordinary course of business and deposit suc ale proceeds in the account maintained with the sale proceeds in the account maintained with bank or financial institutions holding security interes over such assets. You are also directed to file th written statement with a copy thereof furnished to th applicant and to appear before Registrar or 18/06/2023 at 10:30 A.M. failing which the applicatio shall be beard and decided in your absence. d decided in your absence. hand and the seal of this Tribunal o this date: 23/03/2023. Assistant Registrar

Seal Debts Recovery Tribunal, Jaipu

अचल संपत्ति

के लिए

कब्जा सूचना

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. -IndiaShelter 6वाँ तल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा-122002 **शाखा कार्यालयः** दुका

67बी और 68, दूसरा तल, प्लॉट नं. 277 (ईस्ट), टैगोर नगर, डीसीएम के आगे, अजमेर रोड, जयपुर–302021, राजर

नबकि, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रवर्तन (प्रतिभूति) हित प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ प्रतित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर यहाँ यथाउत्लिखिय खाते के लिए तारिख को मांग सच जारी की जिसमें कर्जदार और संपत्ति मालिक∕जमानती से भी सुचना में उठिलखित राशि को उक्त सुचना की तारीख से 60 दिनों के अन्दर अदा करने के लिए कहा गया। जबि संपत्ति मालिक और अन्य के द्वारा राशि अदा न कर पाने पर एतद्वारा उल्लिखित कर्जदारों और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अबोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमात्ती वे नियम 8 व 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति/ओं का प्रत्येक खाते के लिए उल्लिखित तारीखों को मौतिव कब्जा ले लिया है। अब, विशेष रूप से कर्जदार और सर्व जनों को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेन—देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति∕ओं के स

कोई मा लग-दन नाम उल्लाखत राश आर इस पर ब्याज, लागता आदि क लिए के लिए इंडिया शल्टर फोइनेस कापारशन लि. के प्रमार के अधान होगा।						
कर्जदार / जमानती	प्रभारित / बंधक संपत्ति	मांग सूचना की तारीख,	भौतिक कब्जे			
(संपत्ति मालिक) का नाम	(संपत्ति के समस्त भाग व खंड)	मांग सूचना की तारीख	की			
और ऋण खाता संख्या	का विवरण	को देय राशि	तारीख			
श्रीमती सीमा सैन और श्री गिराज प्रसाद सैन,	प्लॉट नं. सी-8, स्कीम देव विहार, आगरा रोड,	मांग सूचनाः 22.09.2022	05.06.2023			
		रु. 1540656.9/- (रुपये पंद्रह लाख चालीस हजार छह सौ छप्पन				
आगरा रोड, जयपुर—302003, राजस्थान	खंड। सीमाएँ: — पूर्वः प्लॉट नं. सी–8ए, पश्चिमः	और नब्बे पैसा मात्र) दिनांक 23.09.2022 को देय और दिनांक				
ऋण खाता सं.	30 फुट चौड़ा रोड, उत्तरः प्लॉट नं. सी–7बी,	24.09.2022 से भुगतान की तारीख तक लागू ब्याज और अन्य				
LA30CLLONS000005011535		सभी लागतों, प्रभारों एवं व्ययों सहित।				
स्थानः राजस्थान, दिनांकः 07.06.2023 (प्राधिकृत अधिकारी) इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड						
किसी पूछताछ के लिए	कृपया श्री वरुण चतुर्वेदी (+91 9829251271) उ	ौर श्री सिद्धार्थ सिंह (+91 7891119990) को संपर्क करें।				

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना							
कर्जदाता (ओं) का नाम	गिरवी संपत्ति (यों) का विवरण	एन.पी.ए.की	बकाया राशि				
(Ū)	(बी)	तारीख (सी)	(板.) (鈏)				
कर्ज खाता क्र.HLAPHDW00242741 1. रेखा रानी तोमर (सह-उधारकर्ता, स्व.श्री भान सिंह तोमर की पत्नी और कानुनी वारिस) 2. शिवांक तोमर (सह-उधारकर्ता, स्व. श्री भान सिंह तोमर के पुत्र और कानुनी वारिस)	प्लॉट नं.एच-59, हरिलोक आवासीय योजना, ज्वालापुर, पुलजाटवाड़ा के पास, तहसील और जिला हरिद्वार-249407, उत्तराखंड		रू.37,68,834.25 (रूपये सैंतीस लाख अडसठ हजार आठ सौ चौंतीस और पच्चीस पैसे मात्र) 25.05.2023 के अनुसार				

कि ऊपर लिखे नाम बाला उधार लेने वाला (ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं। तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार पत्येक उधार पानेवाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराणि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले (लो) की ओर से ऋण धनराशि का पनर्भगतान में लगातार चक होने के कारण उधार लेने वाले (लो) के ऋण खाते को कंपनी टारा मीमांकित मापटंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनसार) के रूप में वर्गीकत किया गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवालो को अधिनियम की धारा 13(2)के अंतर्गत सचनाएं भी जारी की गई है।

. उपर्युक्त को द्रष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवन करती है कि, वे इस सचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अधतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्को सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने/ उनके पर्ण दायित्वोंका निर्वहन करें. ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिगद्दीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप -धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार,'' कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजिनक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों. लागतों और पुभारों के साथ संपर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है. इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधी के अंदर सुरक्षित आस्ति को मोचन करनें में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपति का मोचन करने के लिए पात्र नही हो सकता '

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13 (2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों

में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करनेसे प्रतिबंधित है स्थान : हरिद्वार

प्राधिकृत अधिकारी कृते इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड



का तितरण नीचे दिया गया है।

शाहबाद गेट रामपुर शाखा, बादशाह कॉम्प्लैक्स, राहे मुतर्जा रोड, शाहबाद गेट रामपुर, जिला- रामपुर- 244901 (उ०प्र०)

दुष्टिबंधक समझौते के तहत बैंक को प्रभारित चल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सुचना एत्द्वारा सर्व—साधारण को एवं विशेष रूप से निम्नलिखित ऋणी व गारन्टर को सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित वाहन जोकि बैंक को दृष्टिबंधक है उनका भौतिक कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है। इस वाहन को **''जो है जहां है जैसा है''** के आधार पर ई—नीलामी के माध्यम से बेचा जायेगा। ऋणी / गारन्टर / चल संपत्ति / बकाया / आरक्षित मूल्य / ई–नीलामी की तारीख और समय ईएमडी और बोली वृद्धि राशि

अनु.

क्र. सं.	ऋणी का नाम	ई—नीलामी के अन्तर्गत दृष्टिबंधक संपत्तियों का विवरण	कुल बकाया राशि	आरक्षित मूल्य ईएमडी राशि बोली वृद्धि राशि	ईएमडी जमा खाता नं0 आईएफएससी कोड शाखा	कब्जे की स्थिति (रचनात्मक/मौतिक) सम्पत्ति निरिक्षण की तिथि
	ऋणीः श्री सुरेन्द्र नंदा पुत्र अजीत नंदा, निवासीः सिंह कॉलोनी, बाजार कलां, बिलासपुर, जिला— रामपुर— 244921, गारन्टरः असलम अली पुत्र शकील अली, निवासीः पंजाब नगर, बिलासपुर, रामपुर— 244921	Hyundai i20 Asta CRDI ईंधनः डीजल	(दिनांक 07.06.2023 तक के ब्याज सहित) + अनुबन्धित दर पर ब्याज दिनांक 08.06.2023 से	₹50 4,00,000/- ₹50 40,000/- ₹50 5,000/-	खाता नं0: 40810015181219 BARBOSHAGAT शाहबाद गेट, रामपुर	भौतिक कब्जा दिनांक 09.06.2023 से 25.06.2023 समय दोपहर 01.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट लिंक https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm और https://bob.auctiontiger.net/EPROC/ देखें / जाए / संभावित बोलीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी से 8477009225 / 7055111531 / 7055111541 संपर्क कर सकते हैं—

दिनांकः 08.06.2023 स्थानः रामपुर प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ बडौदा

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री / श्रीमती गीता सोम निवासी A-59 सेक्टर 33, नोएडा, UP द्वारा एक शॉप नंबर 19 प्रोजेक्ट प्रतीक लोरियल युपी में बुक कराय था लेकिन दुर्भाग्यवश श्री / श्रीमती गीता सोम की दिनांक 15 सितंबर 2016 को स्वर्गवास हो

गया था। मृतक श्री / श्रीमती गीता सोम के दो बच्चे पुत्र आशीष राणा और पुत्री स्वाति सोम विधिक प्रतिनिधि हैं तथा ऑपसी सहमति से श्री आशीष राणा व स्वाति सोम निवासी A-59 सेक्टर 33. नोएडा, UP में बतौर स्वर्गवार्स श्री / श्रीमती गीता सोम उक्त शॉप नंबर 19 में अपना नाम दर्ज कराने हेतु प्रतीक ग्रुप वे समक्ष आवेदन किया है।

यदि श्री आशीष राणा व स्वाति सोम के अलाव अन्य कोई व्यक्ति विशेष स्वर्गवासी श्री / श्रीमती गीता सोम का विधि प्रतिपिधि हो तो वह अपनी आपत्ति प्रतीक ग्रप के कार्यालय A - 42. Secto 67, Noida, UP में लिखित रूप में विज्ञापन प्रकाशित होने के **तिथि से 15 दिनों के भीतर** दर्ज करा सकते हैं अन्यथा की स्थिति मे श्री आशीष राणा व स्वाति सोम नाम बतौ वारिस दर्ज करा दिया जाएगा व नियत तिथि के बाद किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।



मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

्रेजीकृत कार्यांकयः टीसी नं. 14/2074-7, मुशूट सेंटर, पुनेन मार्ग, तिरुवनंबपुरम-695 034 निगमित कार्यांकयः 12/ए 01, 13वां तल, पारिणो क्रेसेंजो, भूखंड संख्या सी38 एवं सी39, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जी-स्लॉक (पूर्व), मुंबई-400051, ईमेल आईडीः authorised.officer@muthoot.com

मांग सचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत।

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत मुथूट हाउसिंग फाइनें जबाक, जबाहरताबरफात परिताय पारसपाराया के प्रतिभूतिकरण रेष पुनानमाण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन) नियमावती 2002 के आपत मुंबूट होजरान पान्नेस्व कंपमी ति. ("एमएचएफसीएल") के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावती 2002 के लेतथा व के साथ पठित उत्तर अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रवर्ता शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, प्राधिकृत अधिकारी ने उत्तर अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें निम्निलिखित ऋणकर्ता(ओं), सह—ऋणकर्ता(ओं), गारंटर(रॉ) को संबंधित सूचनाओं के निर्गत होने तथा आपको सूचना प्राप्त करवाने की वैकित्यक सेवा प्रदान करने के रूप में एवं उसके माध्यम से निम्न वर्णितानुसार सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों की समयावधि में अद्यतन व्याज, लागत एवं शुल्कों सिहत संपूर्ण बकाया राशि का मुगतान करके कंपनी के प्रति शेष अपने मुगतान–दायित्व का पूर्णतः निर्वहन करने को कहा गया था। ऋण के नियत प्रतिभुगतान के लेएँ प्रतिभृति के रूप में निम्नलिखित प्रतिभृत परिसंपत्ति(याँ) को उक्त ऋणकर्ता(ओं), सह—ऋणकर्ता(ओं), गारंटर(रां) द्वारा क्रमशः एमएचएफसीएल के पार

एलएएन/ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता/	एनपीए	मांग सूचना	कुल बकाया राशि (रु.)
गारंटर का नाम	की तिथि	की तिथि	लागू भावी ब्याज
ऋण खाता सं. 13100102250 1. नत्थू सिंह, 2. पुष्पा देवी	01—मई—2023	30-मई-2023	

प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) का विवरण : संपत्ति भूखंड सं. 47 के समस्त वह भाग तथा अंश जो गोविंद नगर — डी विस्तार, बेनार रेलवे स्टेशन के समीप, बेनार रोड, जयपुर, राजस्थान—302013 में स्थित है जिसकी माप पूर्व पश्चिम में 28 फुट 06 इंच तथा उत्तर दक्षिण में 23.7 फुट कुल क्षेत्राघिमापन 74.66 वर्ग गज अर्थात् 62.42 वर्ग मीट है तथा भूखंड की चाहरदीवारी इस प्रकार है. पूर्व— अन्य भूमि, पश्चिम- संडक, उत्तर- अन्य भृमि, दक्षिण- भुखंड सं. ४८

ऋण खाता सं 13100093064 रु. 14,53,225 / — (रुपये चौदह लाख तिरेपन हजार दो सौ पच्चीस मात्र) 01-मई-2023 30-मई-2023 संजय पुरुषोत्तम लाल अग्रवाल, 2. नीता संजय अग्रवाल 17—मई—2023 के अनुसार

प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) ∕ अचल संपत्ति(यों) का विवरण : संपत्ति भृखंड सं. सी–75 के समस्त वह भाग तथा अंश जो (भृखंड सं. सी–75 का पश्चिमोत्त जो स्कीम रोयल सिटी, ब्लॉक-सी, मचावा, कलवार रोड, जनपद-जयपुर, राजस्थान में स्थित है जिसका अधिमापन 56.33 वर्ग गज है तथा भूखंड की चाहरदीवारी इस प्रकार है: पूर्व– भूखंड सं. सी–75–सी, पश्चिम– सार्वजनिक सड़क, उत्तर– भूखंड सं. सी–76, दक्षिण– भूखंड सं. सी–75–र

3. ऋण खाता सं. 13100083387 रु. 9,66,294 / – (रुपये नौ लाख छियासव 01-मई-2023 30-मई-2023 सोहन संवर मल ब्रह्मभट्ट, 2. सवर मूलचंद, 17-मई-2023 के अनसार

बेनाड रोड, ग्राम सरनादुनगढ़, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान — 302013 में स्थित है जिसका अधिमापन 64 वर्ग गज है तथा भूखंड की चाहरदीवारी इस प्रकार है: पूर्व- भूखंड सं. 8 सी, पश्चिम- 40 फुट चौड़ी सड़क, उत्तर- भूखंड सं. 8, दक्षिण- भूखंड सं. 8-बी यदि उक्त ऋणकर्ता, सह-ऋणकर्ता(गण) एवं गारंटर(गण) उपर्युक्तानुसार एमएचएफसीएल को मुगतान करने में विफल होते हैं, तो एमएचएफसीएल उक्त ऋणकर्ताओं के संपूर्ण जोखिमों, लागत एवं परिणामों पर उपरोक्त संवर्णित प्रतिभूत परिसंपत्ति का अधिग्रहण करने की अधिकारी होगी और विधि–व्यवस्था के

प्रतिभूत परिसंपत्ति(यो)/अचल संपत्ति(यो) का विवरण: संपत्ति भूखंड सं. 8-ए के समस्त वह भाग तथा अंश जो स्कीम ग्रीन सिटी-IV, निदाड़

iतर्गत कंपनी के पास उपलब्ध ऐसी अन्य कार्यवाहियां करेगी। ज्वत ऋणकर्ता(ऑ), सह-ऋणकर्ता(ऑ) एवं गारंटर(रीं) को सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 की जप-धारा (13) के प्रावधान के अंतर्गत एमएचएफसीएल की पूर्व सहमति के बिना सूचना में सदर्भित उपर्युक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति(याँ) को विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित ज्या जाता है।

स्थानः राजस्थान, दिनांकः 08 जुन, 2023 हस्ता /- प्राधिकृत अधिकारी, कृते मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

V

Vipul

विपुल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः यूनिट सं. 201, सी-50, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 कॉरपोरेट कार्यालयः विपुल टेकस्क्वायर, गॉल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-43, गुड़गाँव-122009

CIN No.: L65923DL2002PLC167607, दूरभाष सं.: 0124-4065500 वेबसाइटः www.vipulgroup.in 31 मार्च, 2023 को समाप्त चतर्थ तिमाही एवं वर्ष के लिए एकल लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

				(रु. लाख	में प्रति शेयर अर्जन	रहित के अलावा)
क्र. सं.	विवरण		माप्त तिमाही के लिप	समाप्त वर्ष		
सं.		31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
		लेखा परीक्षित	अलेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित
1	परिचालनों से कुल आय	1,060.62	759,20	2,339.71	4,696.04	13,158.06
2	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट					
	तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले)	(6,581,88)	(1,221,19)	(654,03)	(10,015,51)	(3,491.51)
3	कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि)					
1	(विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	(6,591,86)	(1,221,19)	(654.03)	(19,478,65)	(3,491.51)
4	करोपरांत अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि)					
1	(विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	(6,591,86)	(1,221,19)	(654,03)	(19,478,65)	(2,785.97)
5	इक्विटी शेयर पूँजी	1,199.84	1,199.84	1,199.84	1,199.84	1,199.84
6	अवधि के लिए कुल परिपूर्ण आय [अवधि (करोपरांत)					
	तथा अन्य परिपूर्ण आय (करोपरांत) के लिए लाभ/					
1	(हानि) सम्मिलित्]	(6,591.86)	(1,221.19)	(604.92)	(19,448.48)	(2,736.86)
7	प्रति शेयर उपार्जन (रु. 1/- प्रत्येक)					
	(जारी एवं बंद परिचालन के लिए)					
1	- बेसिक	(5.49)	(1.02)	(0.55)	(16.23)	(2.32)
	- डाइलूटेड	(5.49)	(1,02)	(0.55)	(16.23)	(2.32)
3	31 मार्च, 2023 को समाप्त चतुर्थ तिमा	ही एवं वर्ष के 1	लिए समेकित त	नेखा परीक्षित '	वित्तीय परिणामं	िका सारांश
1	परिचालनो से कुल आय	1,177.87	860,89	3,164.79	8,482,59	14,776.19
2	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट	, i		'		
1	तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले)	(761,77)	(1,393,35)	(1,398,85)	(1,474,56)	(4,883,43)
3	कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि)	, , ,	, , , ,	` ' ' ' '	, , , , ,	
	(विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	(791,77)	(1,393,35)	(1,403,76)	(10,937,72)	(4,888,38)
4	करोपरांत अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि)	, ,	, ,	` ' /		, ,
	(विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	(692,49)	(1,391,97)	(1,403.51)	(11,733,81)	(4,182.65)
5	इक्विटी शेयर पूँजी	1,199.84	1,199,84	1,199,84	1,199.84	1,199,84
6	अवधि के लिए कुल परिपूर्ण आय [अवधि	· ·	, i			
	(करोपरांत) तथा अन्य परिपूर्ण आय (करोपरांत)					
	के लिए लाभ/(हानि) सम्मिलित]	(662,88)	(1,391,97)	(1,354,40)	(11,704,21)	(4,133,54)
7	प्रति शेयर उपार्जन (रु. 1/- प्रत्येक)	, ,	, , , , , ,	[· · · /		
	(जारी एवं बंद परिचालन के लिए)					
	- बेसिक	(0.58)	(1.16)	(1.17)	(9.78)	(3.49)
	- डाइलुटेड	(0.58)	(1,16)	(1.17)	(9.78)	(3.49)
ਟਿ	पणी :					

ादिष्णा : कपर उल्लिखित विदरण सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं अन्य प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 ("सूचीकरण विनियमन") के विनियमन 33 के अधीन बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टोक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास दायर 31 मार्च, 2023 को समाप्त चतुर्थ तिमाही तथा वर्ष (एकल तथा समेकित) के लिए विस्तृत वित्तीय परिणामों का सारांश है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त चतुर्थ तिमाही एवं वर्ष के वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रास्त्रप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों यानी www.bseindia.com तथा www.nseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.vipulgroup.in पर उपलब्ध है। विनांक 31,03,2022 को समाप्त चतुर्थ तिमाही तथा वर्ष के लिए ऊपरोक्त लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों (एकल एवं समेकित) अन्य विषयों के साथ विपुल एसईजेड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा उसकी सहायिकी कंपनियों के दिनांक 31,03,2020 के अनुसार वित्तीय ऑकडें सम्मिलित हैं, जिसे लेखा परीक्षित

मिति द्वारा समीक्षा की गई है तथा उनकी सिफारिशों पर निदेशक मंडल द्वारा 06 जून, 2023 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में संचार के ऑडियो वीडियो साधनों द्वारा उसे अनमोदित कर दिया है।

सावना क्षार जस अनुभारत कर परचा है। उपरोक्त परिणामों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अधीन निर्धारित आईएनडी एएस में उल्लेखित अनुमोदित तथा परिमापन सिद्धांतों के साथ पठित उसके अधीन जारी प्रासंगिक नियमों तथा भारत में साधारण तौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। संबंधित परिणाम कंपनी की वेबसाइट यानी **www.vipulgroup.in** तथा बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटॉ

ानी www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

बोर्ड के लिए तथा उनकी ओर से विपुल लिमिटेड पुनीत बेरीवाल प्रबंधक निदेशक, सीईओ एवं मुख्य वित्त अधिकारी

तारीख : 06 जून, 2023 स्थान : गुरुग्राम सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना कर्जदाता (ओं) का नाम गिरवी संपत्ति (यों) का विवरण बकाया राशि तारीख (सी) (रू.) (डी) (बी) प्लॉट नं. E-45, ब्लॉक ई, अरन्या सिटी, 25.05.2023 1 कर्ज खाता क्र.HHLGTN00415199 रू.71.17.982.46 (रूपये इकहत्तर लाख सत्रह हजार नौ सेक्टर -11 और 14, सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 30.05.2023 मकान/प्लॉट नं.केबी-008, ब्लॉक-केबी, सेक्टर -63-ए. गौतम बद्ध नगर.

1. कमल नारायण यादव उर्फ के एन मौ बरामी और किराबीम गैमे 2. सीमा यादव मात्र) 25.05.2023 के अनुसार 2 कर्ज खाता क्र.HHLDCP00496072 रू. 40.99.854.85 (रूपये चालीस लाख निन्यानवे हजार 1. संजीव कमार आत सौ चौवन और पचासी पैसे 2. आकांक्ष नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश मात्र) 30.05.2023 के अनुसार 25.05.2023 ³ कर्ज खाता क्र. HHLMAT00501490 प्लॉट नं.- बी-64 और बी-63 के पूर्वी भाग पर रू.13,90,325.89 (रूपये तेरह लाख नब्बे हजार तीन सौ निर्मित घर, गिरिराज वाटिका, खसरा नं.227, 1. रणवीर मौजा रोंची बांगर. तहसील और जिला मथुरा -पन्चीम और नवासी पैसे मात्र) 2. अंगरी देवी 281001.उत्तर पदेश 25.05.2023 के अनसार फ्लैट नं.- एफएफ -2, पहली मंजिल, एलएचएस 22.05.2023 ⁴ कर्ज खाता क्र. HHLDCP00218952 रू.18,13,082.25 (रूपये 1. मोहम्मद ज़मीर एचआईजी के सामने, प्लॉट नं.C-200, अठारह लाख तेरह हजार 2. इलाही बख्श एसएलएफ वेद विहार लोनी, बयासी और पच्चीस पैसे मात्र) गाज़ियाबाद - 201010. उत्तर प्रदेश 22.05.2023 के अनसार फ्लैट नं.- एफ -3, पहली मंजिल, पीछे की 5 कर्ज खारा क HHI NOD00446197 रू.14.91.640.79 (रूपये 1. रंजीत ओर), डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन -॥, प्लॉट चौदह लाख डकानवे हजार छ सं चालीस और उनासी पैसे मात्र) नं B-1/128 ब्लॉक -बी1 गाँव बहापर उर्फ भोपरा, तहसील और जिला 22.05.2023 के अनुसार गाज़ियाबाद - 201010, उत्तर प्रदेश 6 कर्ज खाता क्र. HLAPBRL00449153 बंगलो नं.- 13ए का भाग, प्लॉट नं.12ए सिविल 25.05.2023 रू.28,09,148.36 (रूपये 1. नेहा रस्तोगी प्रॉपराइटर मेसर्स श्री लाइन्स बरेली – 243001, उत्तर प्रदेश अठ्ठाईस लाख नौ हजार एक सौ अंडतालीस और छत्तीस पैसे २ विवेक रस्तोगी मात्र) 25.05.2023 के अनसार 3. निशांत अग्रवाल कर्ज खाता क. HLAPBRI 00513229 | बंगलो नं - 13ए और प्लॉट नं 12ए का भाग. रू.19.18.208.17 (रूपये 1. नेहा रस्तोगी प्रॉपराइटर मेसर्स श्री सिविल लाइन्स, कंपनी गार्डन रोड, उन्नीस लाख अञ्चारह हजार दो बरेली – 243001, उत्तर प्रदेश सौ आठ और संत्रह पैसे मात्र) गोल्ड्स 2. विवेक रस्तोगी 25.05.2023 के अनुसार 3. निशांत अग्रवाल 12.05.2023 ⁸ कर्ज खाता क्र. HLAPMAT00501743 आवासीय फ्लैट संपत्ति प्राइवेट नं.2बी, रू.9,09,238.84 (रूपये 1. श्री प्रहलाद मुखिया एजुकेशनल डब्लयुटीआर नं.27-बी और प्लॉट नं.27-बी नौ लाख नौ हजार दो सौ अड़तीस और चौरासी पैसे मात्र) सोसायटी (उनके सेक्रेटरी द्वारा) 27/2 -2-बी. (भाग) श्रीजी बाबा अपार्टमेंट 2. महेश चंद शर्मा दसरी मंजिल, मोहल्ला, जगन्नाथपरी 12.05.2023 के अनसार

. यशोदा शर्मा कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला (ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनसार पत्येक उधार पानेवाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

मथुरा – 281001, उत्तर प्रदेश

उधार लेने वाले (लो) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चुक होने के कारण उधार लेने वाले (लो) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवालो को अधिनियम की धारा 13(2)के अंतर्गत सचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्यक्त को द्रष्टिगत रखते हुए कंपनी एतददारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवन करती है कि. वे इस सचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अधतन ब्याज, लागतें. तथा शल्को सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने/ उनके पूर्ण दायित्वोंका निर्वहन करे. ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिगृहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी। कपया ध्यान दें कि सरफेसी कानन की धारा 13 की उप -धारा (8) के प्रावधानों के अनसार,'' कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हए सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते दारा सरक्षित आस्तियों की बिकी के लिए सचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड केडिसर दारा किए गए सभी खर्चों लागतों और पुभारों के साथ संपर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधी वे अंदर सरक्षित आस्ति को मोचन करनें में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13 (2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पड़े के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करनेसे प्रतिबंधित हैं ।

स्थान: गरुग्राम/नोएडा/ मथरा/गाज़ियाबाद/बरेली

3. विष्णु शर्मा

5. नितिन शर्मा

प्राधिकत अधिकारी कृते इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड